



©2025 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

**Read This First**


The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**請先閱讀本說明**

本印表機使用的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水濺到您的衣物或物品上，可能會無法清除乾淨。

**पहले इसे पढ़ें**

इस प्रिंटर की इंक को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। जब इंक के टैंक भरे हों या इंक रीफिल की जा रही हो, तो इंक फैल सकती है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो हो सकता है कि यह न छूटे।



Additional items may be included depending on the location. / 視乎不同位置，可能包含額外項目。 / स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।


The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

Initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.


प्रारंभिक इंक की बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि बाद की इंक बोतलों की तुलना में इन बोतलों से कुछ कम पेज प्रिंट हों।

Illustrations of the printer used in this manual are examples only. / 本手冊內使用的印表機圖例僅為範本。 / इस मैनुअल में उपयोग किए गए प्रिंटर के चित्रण केवल उदाहरण हैं।


**Setting Up the Printer / 設定印表機 / प्रिंटर सेट करना**



See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. / 查看此進階使用說明或 Epson 視訊指南以瞭解印表機設定說明。 / प्रिंटर सेटअप संबंधी निर्देशों के लिए यह गाइड या Epson वीडियो गाइड देखें।



Make sure the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill. 確保大容量墨水槽的顏色與您要填充的墨水顏色匹配。 सुनिश्चित करें कि इंक टैंक का रंग इंक के उस रंग से मेल खाता है जिसे आप भरना चाहते हैं।




- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottles that came with your printer.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.


- 保持墨水瓶直立，取下瓶蓋；否則墨水將洩漏。
- 使用印表機隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固範圍內的損壞。

- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; वरना इंक लीक हो सकती है।
- अपने प्रिंटर के साथ आई इंक की बोतलों का उपयोग करें।
- Epson, नकली इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। नकली इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

4 Check the upper line in the ink tank. 檢查大容量墨水槽內的最上標示線。 इंक टैंक की ऊपरी लाइन की जांच करें।



5 Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line. 將墨水瓶垂直插入填充口以填充墨水至最高標示線。 इंक को ऊपरी लाइन तक भरने के लिए इंक बोतल को सीधे घोटें में डालें।



When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts flowing and stops automatically when the ink reaches the upper line.

If the ink does not start flowing into the tank, remove the bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the bottle when the ink has reached the upper line; as doing so may cause ink to leak or damage the printer when the ink rises above the upper line.

Ink may remain in the bottle. You can use the remaining ink to refill later. Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.


- 當您將墨水瓶插入正確顏色的填充口時，墨水開始流入，當墨水達到最高標示線時，會自動停止流入。
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水瓶。然而，當墨水達到最高標示線時，請勿取出和重新插入墨水瓶；在墨水高於最高標示線時，這麼做可能導致墨水滲漏或損壞印表機。
- 墨水可能剩餘在墨水瓶中。您可以利用剩餘的墨水稍後再次注入。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會損壞或墨水可能會滲出。

जब आप सही रंग के लिए फिलिंग पोर्ट में इंक की बोतल डालते हैं, तो इंक जाना शुरू हो जाती है और जब इंक ऊपरी लाइन तक पहुंच जाती है, तो इंक का जाना अपने आप बंद हो जाता है।

यदि टैंक में इंक जाना शुरू नहीं होती, तो इंक की बोतल निकालें और उसे फिर से डालें। हालांकि, जब इंक ऊपरी लाइन तक पहुंच जाए तो बोतल को निकालकर फिर से न लगाएं; क्योंकि ऐसा करने से इंक ऊपरी लाइन से बाहर आकर लीक हो सकती है या प्रिंटर को क्षति पहुंचा सकती है।

- बोतल में इंक बची रह सकती है। आप बची हुई इंक का उपयोग बाद में रीफिल करने के लिए कर सकते हैं।
- इंक की बोतल को डाल कर न छोड़ें; अन्यथा बोतल क्षतिग्रस्त हो सकती है या इंक लीक हो सकती है।


6 When the ink reaches the upper line of the tank, remove the bottle. 當墨水達到大容量墨水槽的最上標示線時，取出墨水瓶。 जब इंक, टैंक की ऊपरी लाइन तक पहुंच जाए, तो बोतल को बाहर निकाल लें।




If any ink remains in the bottle, tighten the cap and store the bottle upright for later use. 如果墨水瓶內剩餘任何墨水，請擰緊瓶蓋，將墨水瓶直立儲存，以供將來使用。

यदि बोतल में इंक बच जाती है, तो उसका ढक्कन अच्छी तरह लगा दें और बोतल को बाद में उपयोग करने के लिए सीधा करके रखें।

7 Securely close the ink tank cap. 墨水槽蓋。 इंक टैंक का ढक्कन सुरक्षित रूप से बंद करें।




8 Repeat the previous steps for the other colors. 針對其他顏色重複上述步驟。 दूसरे रंगों के लिए पिछले चरणों को दोहराएं।



9 L3310 Series: Close the scanner unit. For safety, the unit closes in two steps as shown. 關閉掃描器單元。出於安全考慮，裝置按照所示的兩步關上。



स्केनर यूनिट को बंद करें। सुरक्षा के लिए, यूनिट दिखाए अनुसार दो चरणों में बंद होती है।



You must close the unit completely before you can open it again. 您必須徹底關上，然後才能再次打開。




यूनिट को दोबारा खोलने से पहले आपको उसे पूरी तरह से बंद करना होगा।

L1310 Series: Close the printer cover. 關上印表機蓋。 प्रिंटर का कवर बंद कर दें।





12 Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the button for 5 seconds to start charging the ink. Ink charging takes about 10 minutes. 確認墨水槽已填充墨水，然後按住 5 秒以開始填充墨水。填充墨水需要約 10 分鐘。

पुष्टि करें कि टैंक इंक से भरे हुए हैं और फिर इंक चार्जिंग शुरू करने के लिए 5 बटन को 5 सेकंड तक दबाए रखें। इंक चार्जिंग में करीब 10 मिनट लगते हैं।



14 Load A4 size plain paper in the center of the paper support with the printable side facing up. 將 A4 尺寸的普通紙裝入紙張支撐板中央，並以可列印面向上。




प्रिंट करने वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखकर पेपर सपोर्ट के बीच वाले हिस्से में A4 आकार का सादा पेपर लोड करें।




15 Press the button to turn off the printer. 按下 5 鍵以關閉印表機。 प्रिंटर बंद करने के लिए 5 बटन दबाएं।

16 Hold down the button, then press the button until the printer turns on. A nozzle check pattern prints. 按下 5 鍵，然後按下 5 鍵，直到印表機開啟。將列印頭噴嘴檢查圖案。

5 बटन को दबाकर रखें, फिर 5 बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि प्रिंटर चालू नहीं हो जाता। एक नोजल चेक पैटर्न प्रिंट हो जाता है।





17 Check the printed pattern to see if the print head nozzles are clogged. 檢查列印的圖案以查看印字頭噴嘴是否堵塞。 प्रिंट हुए पैटर्न में देखें कि प्रिंट हेड की नोजल बंद तो नहीं है।



18 If you see gaps in the pattern, run the print head cleaning. Cleaning the print head consumes ink from all of the ink tanks. 如果您看到圖案上有斷線，清潔印字頭會消耗所有墨水盒中的墨水。

यदि आपको पैटर्न में अंतर दिखाई दे, तो प्रिंट हेड क्लीनिंग को चलाएं। प्रिंट हेड को साफ करने में सभी इंक टैंक की इंक लगती है।



19 Visit the website to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use. 造訪網站以安裝軟體和配置網路。完成操作後，印表機已做好使用準備。

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। इसके पूरा हो जाने पर, प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

L3310 Series  
<https://epson.sn/3310>

L1310 Series  
<https://epson.sn/1310>

